



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939

No. 805]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

का.आ. 909(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के उपखंड (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2663(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को, स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आकार के प्रति थैले के लिए, इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से, ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टिमें विनिर्दिष्ट उर्वरकों का, चाय, काफी या खर बागानों के उगाने वालों या खेतिहरों को डीलर, विनिर्माता आयातक या पूल हैंडलिंग अभिकरण द्वारा विक्रय किया जाएगा :--

अनुसूची

क्रम सं.	उर्वरक का नाम	थैले का आकार	प्रति थैला अधिकतम कीमत (रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	यूरिया (46% नाइट्रोजन)	45 किलोग्राम	242/- रुपए
2.	जिकेटेड यूरिया	45 किलोग्राम	266/- रुपए

स्पष्टीकरण 1 :—ऊपर नियत अधिकतम कीमत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या प्रतिपाटन शुल्क, राज्य कर और अन्य स्थानीय कर, जहां कहीं भी उद्गृहीत किए जाते हैं, चाहे खुदरा विक्रय बिंदु या किसी मध्यवर्ती स्तर पर, सम्मिलित नहीं हैं।

स्पष्टीकरण 2 :—जहां किसी उर्वरक का विक्रय, 25 किलोग्राम से अनधिक मात्राओं में किया जाता है, वहां डीलर उर्वरक के छोटे थैलों पर अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि प्रभारित कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) 2 किलोग्राम की पैकिंग पर 1.50 रुपए प्रति पैकिंग;
- (ख) 5 किलोग्राम की पैकिंग पर 2.25 रुपए प्रति पैकिंग;
- (ग) 10 किलोग्राम की पैकिंग पर 3.50 रुपए प्रति पैकिंग; और
- (घ) 25 किलोग्राम की पैकिंग पर 5.00 रुपए प्रति पैकिंग।

(2) 50 किलोग्राम के थैले, यदि कोई हो, का विक्रय डीलर, विनिर्माता, आयातक और पूल हैंडलिंग अभिकरण द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में नियत कीमत पर किया जाएगा, जिसमें ऊपर स्पष्टीकरण 1 में विनिर्दिष्ट कर सम्मिलित नहीं हैं।

(3) इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पश्चात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित कीमत पर प्राप्त उर्वरक के विक्रय न किए गए स्टॉक को विनिर्माता और पूल हैंडलिंग अभिकर्ता, चाहे वे सरकारी, प्राइवेट या सहकारी सैक्टर में हों (जिसके अंतर्गत राज्य कृषि उद्योग निगम, शीर्षस्थ सहकारी विपणन संघ और अन्य संस्थागत अभिकरण भी हैं) से भिन्न किसी थोक या खुदरा व्यवहारी द्वारा उक्त अधिसूचना के अधीन नियत अधिकतम कीमत से अनधिक कीमत पर विक्रय नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. 3-12/2017-उ.वि.]

उपमा श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 1st March, 2018

S.O. 909(E).—In pursuance of sub-clause (1) of clause 3 of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O. 2663 (E) dated the 31st October, 2012 (hereinafter referred to as the said notification), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby fixes, with effect from the date of issue of this notification, the prices specified in column (4) of the Schedule annexed hereto as the maximum price per bag of size specification in column (3) at which the fertilisers specified in the corresponding entries in column (2) of the said Schedule shall be sold by a dealer, manufacturer, importer or a pool handling agency to the growers of tea, coffee or rubber plantations or to the cultivators:—

SCHEDULE

S.No.	Name of fertiliser	Bag size	Maximum price per bag (net in Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Urea (46% N)	45 kg.	Rs. 242/-
2.	Zincated Urea	45 kg.	Rs. 266/-

Explanation I.—The maximum price fixed above shall be exclusive of the central excise duty, Central Tax, Integrated Tax, Union Territory Tax or Countervailing Duty, the state tax and other local taxes wherever levied, whether at the retail sales point or at an intermediate stages.

Explanation II : Where the sale of any fertiliser is made in quantities not exceeding 25 kilograms, the dealer may charge the following amount on small fertiliser bags in addition to the price specified in the Schedule namely:-

- (a) On packing of 2 kg. Rs. 1.50 per packing;
 - (b) On packing of 5 kg Rs. 2.25 per packing;
 - (c) On packing of 10 kg. Rs. 3.50 per packing; and
 - (d) On packing of 25 kg. Rs. 5.00 per packing.
- (2) The 50 kg. bag, if any, shall be sold by a dealer, manufacturer, importer and a pool handling agency at the price fixed in the Schedule to the said notification which shall be exclusive of taxes specified in Explanation I above.
- (3) After the coming into force of this notification, the unsold stocks of fertiliser procured at the price fixed in the Schedule to the said notification, by any wholesale or retail dealer other than the manufacturer and pool handling agent, whether in the Government, private or cooperative sector (including the State Agro-Industries Corporations, Apex Cooperative Marketing Federations and other institutional agencies), shall be sold at the price not exceeding the maximum price fixed under the said notification.

[F.No. 3-12/2017 Fert. Law]

UPMA SRIVASTAVA, Addl. Secy.